



## 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2012             | 2013             |                  | घट – बढ़      |                 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                                         | 10 फरवरी         | 1 फरवरी          | 8 फरवरी          | सप्ताह        | वर्ष            |
|                                         | 1                | 2                | 3                | 4             | 5               |
| <b>1 जारी नोट</b>                       | <b>10,415.73</b> | <b>11,395.71</b> | <b>11,549.18</b> | <b>153.47</b> | <b>1,133.44</b> |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 10,415.59        | 11,395.58        | 11,549.01        | 153.43        | 1,133.42        |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.14             | 0.12             | 0.17             | 0.04          | 0.02            |
| <b>2 जमा राशियां</b>                    |                  |                  |                  |               |                 |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 1.01             | 224.28           | 391.04           | 166.76        | 390.03          |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | —                | —                | —                | —             | —               |
| 2.3 राज्य सरकार                         | 0.42             | 0.42             | 0.43             | —             | —               |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 3,258.02         | 3,203.60         | 2,840.52         | -363.08       | -417.50         |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 35.55            | 31.78            | 29.64            | -2.14         | -5.92           |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 159.55           | 149.90           | 141.70           | -8.20         | -17.85          |
| 2.7 अन्य                                | 115.75           | 119.49           | 120.17           | 0.68          | 4.42            |
| 3 अन्य देयताएं                          | 5,371.74         | 6,758.22         | 6,784.27         | 26.05         | 1,412.53        |
| <b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>           | <b>19,357.78</b> | <b>21,883.40</b> | <b>21,856.94</b> | <b>-26.46</b> | <b>2,499.17</b> |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 12,897.80        | 13,976.87        | 14,012.19        | 35.32         | 1,114.39        |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1,327.83         | 1,437.46         | 1,437.46         | —             | 109.64          |
| 3 रूपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 4,992.95         | 6,166.75         | 6,146.19         | -20.57        | 1,153.24        |
| <b>4 ऋण और अग्रिम</b>                   |                  |                  |                  |               |                 |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | —                | —                | 2.02             | 2.02          | 2.02            |
| 4.3 नाबार्ड                             | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 41.86            | 225.79           | 177.08           | -48.71        | 135.22          |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.8 अन्य                                | 21.11            | 4.74             | 7.50             | 2.76          | -13.62          |
| <b>5 खरीदे और भुनाए गए बिल</b>          |                  |                  |                  |               |                 |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | —                | —                | —                | —             | —               |
| 5.2 खजाना                               | —                | —                | —                | —             | —               |
| 6 निवेश                                 | 13.20            | 13.20            | 13.20            | —             | —               |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 63.03            | 58.59            | 61.31            | 2.72          | -1.72           |

## 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                      | 8 फरवरी 2013 को |                  | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |               |                          |               |                |                |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                         |                 |                  | सप्ताह                     |               | मार्च 2012 की समाप्ति पर |               | वर्ष           |                |
|                                         | बिलियन ₹        | मिलि.अम. डॉलर    | बिलियन ₹                   | मिलि.अम. डॉलर | बिलियन ₹                 | मिलि.अम. डॉलर | बिलियन ₹       | मिलि.अम. डॉलर  |
|                                         | 1               | 2                | 3                          | 4             | 5                        | 6             | 7              | 8              |
| <b>1 कुल भंडार</b>                      | <b>15,771.0</b> | <b>294,542.6</b> | <b>33.0</b>                | <b>-611.9</b> | <b>709.7</b>             | <b>145.1</b>  | <b>1,206.5</b> | <b>1,158.7</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां              | 13,969.9        | 260,780.3        | 35.1                       | -542.8        | 664.8                    | 711.6         | 1,091.0        | 1,333.5        |
| 1.2 स्वर्ण                              | 1,437.5         | 26,974.9         | —                          | —             | 55.0                     | -48.2         | 109.7          | 247.3          |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                   | 237.1           | 4,425.6          | -0.6                       | -31.2         | 8.5                      | -43.7         | 15.0           | -49.3          |
| 1.4 आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति | 126.5           | 2,361.8          | -1.5                       | -37.9         | -18.6                    | -474.6        | -9.2           | -372.8         |

## 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 8 फरवरी 2013 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ = ₹ 2,946.5 बिलियन | 2013     |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                          | 26 जनवरी | 27 जनवरी | 28 जनवरी | 29 जनवरी | 30 जनवरी | 31 जनवरी | 1 फरवरी | 2 फरवरी | 3 फरवरी | 4 फरवरी | 5 फरवरी | 6 फरवरी | 7 फरवरी |
|                                                                                                          | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                             | 3,118.2  | 3,118.2  | 2,994.8  | 2,852.1  | 3,042.8  | 2,984.0  | 3,203.7 | 3,257.1 | 3,257.1 | 2,857.0 | 2,697.7 | 2,619.0 | 2,896.0 |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                             | 105.8    | 105.8    | 101.6    | 96.8     | 103.3    | 101.3    | 108.7   | 110.5   | 110.5   | 97.0    | 91.6    | 88.9    | 98.3    |

# 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                            | 25 जनवरी 2013 को बकाया | निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़ |                      |                |                |                |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               |                        | परखवाड़े में                  | वित्त वर्ष में अब तक |                | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                               |                        |                               | 2011-2012            | 2012-2013      | 2012           | 2013           |
|                                               | 1                      | 2                             | 3                    | 4              | 5              | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>     |                        |                               |                      |                |                |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां       | 785.1                  | -9.1                          | 2.3                  | -57.4          | 69.2           | 45.4           |
| 1.2 बैंकों से उधार                            | 322.2                  | 60.8                          | 37.4                 | 2.9            | 85.4           | -12.4          |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं               | 83.5                   | -28.2                         | 30.7                 | 22.1           | 32.3           | -18.4          |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                |                        |                               |                      |                |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                            | 65,271.2               | -114.8                        | 5,639.8              | 6,180.3        | 7,845.3        | 7,551.7        |
| 2.1.1 वृद्धि (प्रतिशत)                        |                        | -0.2                          | 10.8                 | 10.5           | 15.7           | 13.1           |
| 2.1.1.1 मांग                                  | 6,099.0                | 39.4                          | -461.5               | -154.3         | 47.3           | 143.5          |
| 2.1.1.2 मीयादी                                | 59,172.0               | -154.3                        | 6,101.3              | 6,334.5        | 7,798.0        | 7,408.1        |
| 2.2 उधार                                      | 2,066.4                | -86.8                         | 520.5                | 1.8            | 598.9          | 232.5          |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं               | 3,923.0                | 54.2                          | 79.9                 | 189.1          | 237.2          | 425.0          |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                 | <b>246.8</b>           | <b>29.9</b>                   | <b>42.3</b>          | <b>159.3</b>   | <b>48.9</b>    | <b>154.2</b>   |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष</b> | <b>3,560.7</b>         | <b>178.6</b>                  | <b>559.4</b>         | <b>-33.3</b>   | <b>827.6</b>   | <b>-493.8</b>  |
| 4.1 पास में नकदी                              | 442.6                  | 41.0                          | 67.3                 | 81.3           | 50.2           | 71.8           |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष               | 3,118.1                | 137.6                         | 492.0                | -114.6         | 777.3          | -565.6         |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>      |                        |                               |                      |                |                |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                    | 781.4                  | -37.8                         | 81.9                 | 74.8           | 169.5          | 138.1          |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि        | 218.0                  | 11.4                          | 64.8                 | -14.8          | 90.4           | -12.9          |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                          | 76.3                   | -17.2                         | -52.8                | -59.5          | 12.4           | 3.5            |
| 5.4 अन्य आस्तियां                             | 668.5                  | -23.0                         | 115.5                | -35.5          | 318.8          | -137.7         |
| <b>6 निवेश</b>                                | <b>19,663.6</b>        | <b>-134.2</b>                 | <b>1,898.2</b>       | <b>2,285.7</b> | <b>2,085.3</b> | <b>2,749.2</b> |
| 6.1 वृद्धि (प्रतिशत)                          |                        | -0.7                          | 12.6                 | 13.2           | 14.1           | 16.3           |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                   | 19,637.3               | -127.4                        | 1,911.6              | 2,287.1        | 2,097.2        | 2,754.2        |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में            | 26.3                   | -6.8                          | -13.4                | -1.4           | -12.0          | -5.0           |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                              | <b>50,512.2</b>        | <b>84.3</b>                   | <b>4,106.5</b>       | <b>4,393.7</b> | <b>6,150.5</b> | <b>6,985.0</b> |
| 7.1 वृद्धि (प्रतिशत)                          |                        | 0.2                           | 10.4                 | 9.5            | 16.5           | 16.0           |
| 7.1.1 खाद्य ऋण                                | 1,057.1                | -7.1                          | 188.0                | 244.0          | 219.1          | 226.2          |
| 7.1.2 खाद्येतर ऋण                             | 49,455.2               | 91.4                          | 3,918.4              | 4,149.7        | 5,931.5        | 6,758.8        |
| 7.2 ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट             | 48,628.8               | 77.9                          | 4,022.9              | 4,269.0        | 5,944.2        | 6,665.8        |
| 7.2.1 देशी बिल-खरीदे गए                       | 229.0                  | -2.2                          | 21.2                 | 65.6           | 30.1           | 73.3           |
| 7.2.2 भुनाए गए                                | 1,004.9                | 15.4                          | 26.0                 | 25.1           | 133.5          | 180.2          |
| 7.2.3 विदेशी बिल-खरीदे गए                     | 206.2                  | -5.9                          | 5.2                  | -5.5           | 7.2            | 15.1           |
| 7.2.4 भुनाए गए                                | 443.4                  | -1.0                          | 31.1                 | 39.6           | 35.5           | 50.5           |

# 5. अनुपात और दर

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                    | 2012        | 2013       |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                     | 10 फरवरी    | 11 जनवरी   | 18 जनवरी   | 25 जनवरी   | 1 फरवरी    | 8 फरवरी    |
|                                                     | 1           | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| <b>अनुपात</b>                                       |             |            |            |            |            |            |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                            | 5.50        | 4.25       | 4.25       | 4.25       | 4.25       | 4.25       |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                              | 24.00       | 23.00      | 23.00      | 23.00      | 23.00      | 23.00      |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                 | 6.20        | 5.17       | ..         | 5.46       | ..         | ..         |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                   | 75.50       | 77.12      | ..         | 77.39      | ..         | ..         |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                         | 73.85       | 68.46      | ..         | 71.13      | ..         | ..         |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                | 29.84       | 30.28      | ..         | 30.13      | ..         | ..         |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                      | 38.65       | 38.44      | ..         | 36.98      | ..         | ..         |
| <b>दर</b>                                           |             |            |            |            |            |            |
| नीतिगत रिपो दर                                      | 8.50        | 8.00       | 8.00       | 8.00       | 7.75       | 7.75       |
| रिवर्स रिपो दर                                      | 7.50        | 7.00       | 7.00       | 7.00       | 6.75       | 6.75       |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                  | 9.50        | 9.00       | 9.00       | 9.00       | 8.75       | 8.75       |
| बैंक दर                                             | 6.00        | 9.00       | 9.00       | 9.00       | 8.75       | 8.75       |
| आधार दर                                             | 10.00/10.75 | 9.75/10.50 | 9.75/10.50 | 9.75/10.50 | 9.75/10.50 | 9.70/10.50 |
| सावधी जमा दर >1 वर्ष                                | 8.25/9.25   | 8.50/9.00  | 8.50/9.00  | 8.50/9.00  | 7.50/9.00  | 7.50/9.00  |
| बचत जमाराशि दर                                      | 4.00        | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       |
| मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत)                       | 8.69        | 8.00       | 8.02       | 8.00       | 7.88       | 7.75       |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                   | 8.90        | 8.06       | 7.98       | 7.98       | 7.94       | 7.98       |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | ..          | ..         | 7.99       | ..         | 7.94       | ..         |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | 8.51        | 7.85       | ..         | 7.84       | ..         | 7.88       |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय                       | 8.19        | 7.87       | 7.86       | 7.88       | 7.91       | 7.84       |
| <b>भारिबैं संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमियम</b>       |             |            |            |            |            |            |
| आईएनआर-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 49.64       | 54.54      | 53.95      | 53.85      | 53.32      | 53.57      |
| आईएनआर-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 65.80       | 72.29      | 72.21      | 71.72      | 72.63      | 71.79      |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमियम 1-माह              | 8.46        | 7.37       | 7.45       | 7.24       | 6.75       | 7.17       |
| 3-माह                                               | 8.14        | 7.04       | 7.34       | 7.43       | 7.58       | 7.69       |
| 6-माह                                               | 7.09        | 6.60       | 6.90       | 6.87       | 7.13       | 7.13       |

## 6. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया |          | निम्न की तुलना में घट-बढ़ |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|---------|-------|
|                                                    | 2012           | 2013     | पखवाड़ा                   |      | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |       |         |       |
|                                                    | 31 मार्च       | 25 जनवरी |                           |      | 2011-2012            |       | 2012-2013 |       | 2012         |       | 2013    |       |
|                                                    | राशि           | %        | राशि                      | %    | राशि                 | %     | राशि      | %     | राशि         | %     | राशि    | %     |
|                                                    | 1              | 2        | 3                         | 4    | 5                    | 6     | 7         | 8     | 9            | 10    | 11      | 12    |
| एम <sub>3</sub>                                    | 73,577.5       | 81,004.0 | -111.7                    | -0.1 | 6,807.1              | 10.5  | 7,426.5   | 10.1  | 9,288.5      | 14.8  | 9,155.7 | 12.7  |
| <b>1 घटक</b>                                       |                |          |                           |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 10,256.7       | 11,087.9 | -9.8                      | -0.1 | 835.9                | 9.2   | 831.2     | 8.1   | 1,072.7      | 12.1  | 1,133.6 | 11.4  |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमा                         | 7,049.1        | 6,922.8  | 36.6                      | 0.5  | -489.0               | -6.8  | -126.4    | -1.8  | 89.3         | 1.3   | 183.2   | 2.7   |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमा                       | 56,243.5       | 62,978.6 | -138.7                    | -0.2 | 6,470.2              | 13.3  | 6,735.2   | 12.0  | 8,233.1      | 17.6  | 7,850.7 | 14.2  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा                 | 28.2           | 14.7     | 0.3                       | 1.8  | -9.9                 | -27.2 | -13.5     | -47.8 | -106.7       | -80.0 | -11.9   | -44.6 |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>               |                |          |                           |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 23,716.1       | 26,577.2 | 47.9                      | 0.2  | 3,228.9              | 16.3  | 2,861.1   | 12.1  | 4,689.5      | 25.5  | 3,509.3 | 15.2  |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 5,357.4        | 5,851.2  | 173.1                     |      | 1,218.4              |       | 493.9     |       | 2,491.0      |       | 667.3   |       |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 18,358.8       | 20,726.0 | -125.2                    | -0.6 | 2,010.5              | 12.7  | 2,367.2   | 12.9  | 2,198.5      | 14.0  | 2,842.0 | 15.9  |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 49,605.3       | 54,355.2 | 73.2                      | 0.1  | 4,593.4              | 10.8  | 4,749.9   | 9.6   | 6,750.0      | 16.8  | 7,395.0 | 15.7  |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 39.6           | 30.6     | -10.8                     |      | 10.9                 |       | -9.0      |       | 19.3         |       | -2.0    |       |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 49,565.7       | 54,324.6 | 84.0                      | 0.2  | 4,582.5              | 10.8  | 4,758.9   | 9.6   | 6,730.7      | 16.7  | 7,396.9 | 15.8  |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 15,437.8       | 16,082.0 | -211.4                    | -1.3 | 933.0                | 6.7   | 644.2     | 4.2   | 1,059.2      | 7.7   | 1,215.6 | 8.2   |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 134.4          | 147.2    | —                         | —    | 4.3                  | 3.4   | 12.8      | 9.5   | 6.8          | 5.4   | 15.7    | 11.9  |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं         | 15,316.2       | 16,157.6 | 21.3                      | 0.1  | 1,952.5              | 17.4  | 841.4     | 5.5   | 3,217.0      | 32.3  | 2,979.8 | 22.6  |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं          | 6,038.4        | 7,013.0  | -189.6                    | -2.6 | 1,812.8              | 49.2  | 974.6     | 16.1  | 1,758.9      | 47.1  | 1,516.7 | 27.6  |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया  |                 | निम्न की तुलना में घट-बढ़ |             |                      |            |              |            |                |            |              |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|
|                                                                  | 2012            | 2013            | सप्ताह                    |             | वित्त वर्ष में अब तक |            |              |            | वर्ष-दर-वर्ष   |            |              |            |
|                                                                  | 31 मार्च        | 8 फरवरी         |                           |             | 2011-2012            |            | 2012-2013    |            | 2012           |            | 2013         |            |
|                                                                  | राशि            | %               | राशि                      | %           | राशि                 | %          | राशि         | %          | राशि           | %          | राशि         | %          |
|                                                                  | 1               | 2               | 3                         | 4           | 5                    | 6          | 7            | 8          | 9              | 10         | 11           | 12         |
| <b>आरक्षित मुद्रा</b>                                            | <b>14,263.4</b> | <b>14,723.1</b> | <b>-220.4</b>             | <b>-1.5</b> | <b>253.6</b>         | <b>1.8</b> | <b>459.7</b> | <b>3.2</b> | <b>1,245.8</b> | <b>9.8</b> | <b>701.3</b> | <b>5.0</b> |
| <b>1 घटक (1.1+1.2+1.3)</b>                                       |                 |                 |                           |             |                      |            |              |            |                |            |              |            |
| 1.1 संचलन में करेंसी                                             | 10,672.3        | 11,696.2        | 153.4                     | 1.3         | 1,050.6              | 11.1       | 1,023.9      | 9.6        | 1,128.3        | 12.0       | 1,149.1      | 10.9       |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमा                              | 3,562.9         | 3,011.9         | -373.4                    | -11.0       | -782.0               | -18.5      | -551.1       | -15.5      | 126.8          | 3.8        | -441.3       | -12.8      |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा                               | 28.2            | 15.0            | -0.4                      | -2.7        | -15.0                | -41.1      | -13.2        | -46.9      | -9.4           | -30.3      | -6.5         | -30.3      |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>                             |                 |                 |                           |             |                      |            |              |            |                |            |              |            |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 5,357.4         | 5,759.4         | -183.7                    |             | 1,027.1              |            | 402.0        |            | 1,998.3        |            | 766.7        |            |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 5,344.1         | 5,757.8         | -185.7                    |             | 1,052.7              |            | 413.7        |            | 2,018.2        |            | 764.7        |            |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | 88.1            | 197.6           | -46.0                     |             | 2.7                  |            | 109.5        |            | 29.1           |            | 121.6        |            |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दिया गया ऋण                  | 48.5            | 178.3           | -48.7                     |             | -9.4                 |            | 129.8        |            | 11.0           |            | 136.1        |            |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 14,722.0        | 15,448.3        | 34.2                      | 0.2         | 939.7                | 7.1        | 726.4        | 4.9        | 880.5          | 6.6        | 1,222.9      | 8.6        |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 134.4           | 147.2           | —                         | —           | 4.3                  | 3.4        | 12.8         | 9.5        | 6.8            | 5.4        | 15.7         | 11.9       |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयता                            | 6,038.4         | 6,829.4         | 25.0                      | 0.4         | 1,720.3              | 46.7       | 791.0        | 13.1       | 1,669.0        | 44.7       | 1,425.6      | 26.4       |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ बिलियन)

| दिनांक       | चलनिधि समायोजन सुविधा |             | एमएसएफ | स्थायी चलनिधि सुविधा | ओएमओ (तत्काल) |      | निवल आपूर्ति (+)<br>/ अवशोषण (-)<br>(1+3+4+6-2-5) |
|--------------|-----------------------|-------------|--------|----------------------|---------------|------|---------------------------------------------------|
|              | रिपो                  | रिवर्स रिपो |        |                      | विक्रय        | क्रय |                                                   |
|              | 1                     | 2           |        |                      | 5             | 6    |                                                   |
| 4 फरवरी 2013 | 720.25                | 12.00       | —      | -19.09               | —             | —    | 689.16                                            |
| 5 फरवरी 2013 | 583.20                | —           | —      | -45.00               | —             | —    | 538.20                                            |
| 6 फरवरी 2013 | 576.15                | 15.00       | —      | 92.36                | —             | —    | 653.51                                            |
| 7 फरवरी 2013 | 1,169.80              | 32.10       | —      | -33.72               | —             | —    | 1,103.98                                          |
| 8 फरवरी 2013 | 1,082.25              | 10.95       | —      | -40.50               | —             | —    | 1,030.80                                          |

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                                  | 2011         | 2012         |              | 2013         | प्रतिशत अंतर |            |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
|                                                                     | दिसम्बर      | जनवरी        | दिसम्बर      | जनवरी        | माह          | मार्च      | वर्ष        |
|                                                                     | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6          | 7           |
| <b>1 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)</b>                            | <b>157.3</b> | <b>158.7</b> | <b>168.6</b> | <b>169.2</b> | <b>0.4</b>   | <b>5.1</b> | <b>6.6</b>  |
| 1.1 प्राथमिक वस्तुएं                                                | 198.9        | 200.7        | 220.0        | 221.4        | 0.6          | 6.5        | 10.3        |
| 1.2 ईंधन और बिजली                                                   | 172.7        | 177.0        | 188.9        | 189.5        | 0.3          | 6.6        | 7.1         |
| 1.3 विनिर्मित उत्पाद                                                | 140.9        | 141.5        | 148.0        | 148.3        | 0.2          | 4.0        | 4.8         |
| <b>2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2010=100)</b>                          | <b>113.6</b> | <b>114.0</b> | <b>125.6</b> | <b>126.3</b> | <b>0.6</b>   | <b>9.4</b> | <b>10.8</b> |
| 2.1 ग्रामीण                                                         | 114.5        | 114.9        | 126.8        | 127.4        | 0.5          | 9.6        | 10.9        |
| 2.2 शहरी                                                            | 112.3        | 112.8        | 124.0        | 124.9        | 0.7          | 9.0        | 10.7        |
| <b>3 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100)</b> | <b>197.0</b> | <b>198.0</b> | <b>219.0</b> | <b>..</b>    | <b>..</b>    | <b>..</b>  | <b>..</b>   |

## 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 2                       | 3                     |
| 11 जनवरी 2013  | 3,382.9                  | 241.1                   | 8.19 - 8.88           |
| 25 जनवरी 2013  | 3,251.0                  | 174.8                   | 8.11 - 9.25           |

## 11. वाणिज्यिक पेपर

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                          |
|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज की दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 2                       | 3                        |
| 15 जनवरी 2013  | 2,117.5                  | 472.3                   | 8.05 - 13.45             |
| 31 जनवरी 2013  | 1,998.4                  | 275.6                   | 7.97 - 13.37             |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                       | समाप्त सप्ताह |              |              |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                          | 10 फरवरी 2012 | 1 फरवरी 2013 | 8 फरवरी 2013 |
|                          | 1             | 2            | 3            |
| 1 मांग मुद्रा            | 182.8         | 314.1        | 234.4        |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 55.5          | 110.0        | 79.2         |
| 3 सीबीएलओ                | 629.7         | 1,150.5      | 939.0        |
| 4 बाजार रिपो             | 536.0         | 824.9        | 944.7        |
| 5 कारपोरेट बांड में रिपो | —             | 0.8          | —            |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 8 फरवरी 2013 को | प्रमुख धारक |                   |               | कुल     |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|---------|
|                 | बैंक        | प्राथमिक व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                 | 1           | 2                 | 3             |         |
| 14-दिवसीय       | —           | —                 | 1,029.4       | 1,036.3 |
| 91-दिवसीय       | 364.7       | 201.2             | 529.7         | 1,229.8 |
| 182-दिवसीय      | 259.1       | 250.9             | 2.4           | 652.4   |
| 364-दिवसीय      | 279.6       | 560.9             | 3.8           | 1,274.7 |
| सीएमबी          | —           | —                 | —             | —       |

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई समग्र राशि          |                               |         | जुटाई गई निवल राशि           |                               |         |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|---------|
|                  | 2012-13<br>(8 फरवरी 2013 तक) | 2011-12<br>(10 फरवरी 2012 तक) | 2011-12 | 2012-13<br>(8 फरवरी 2013 तक) | 2011-12<br>(10 फरवरी 2012 तक) | 2011-12 |
|                  | 1                            | 2                             | 3       | 4                            | 5                             | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 5,340.0                      | 4,620.0                       | 5,100.0 | 4,433.8                      | 3,884.2                       | 4,364.2 |
| 2. राज्य सरकारें | 1,490.0                      | 1,286.9                       | 1,586.3 | 1,324.4                      | 1,096.4                       | 1,366.4 |

स्पष्टिकरणात्मक टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में ₹ 950 तथा विदेश में 45 अमरीकी डॉलर है।

श्री संजय कुमार हाँसदा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटोग्राफी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 28 मुंबई समाचार मार्ग, राजा बहादुर बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई - 400 023 में मुद्रित।

संपादक श्री संजय कुमार हाँसदा।